



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 1994/चंअ 15, 1916
No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5 1994/CHA/TRA 15, 1916

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1994

का. प्रा. 290(अ):— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ नईसवां संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में:—

(क) "अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्न-लिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"9. एकीकृत प्राथमिक ऊर्जा कार्यक्रम।";

(ख) "अंतरिक्ष विभाग" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

- "11. राष्ट्रीय मध्यमंडल समतापमंडल और ध्रुवमंडल रेडार सुविधा से संबंधित सभी विषय ।
12. अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड ।"

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/5/93 मंत्र.]
संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1994

S.O. 290(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Twenty-third Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at once.

2 In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK SOORJA SHUKTA MANTRALAYA)", after entry 8, the following entry shall be added, namely :—

"9. Integrated Rural Energy Programme (IREP).";

(b) under the heading "DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)", after entry 10, the following entries shall be added, namely :—

"11. All matters relating to the National Mesosphere, Stratosphere and Troposphere Radar Facility (NMRF).

12. Antrix Corporation Limited."

SHANKER DAYAL SHARMA,
PRESIDENT

[F. No. 74/2/5/93-Cab.]
SANJIV MISRA, Jt. Secy.